

**ansal HOUSING & CONSTRUCTION LTD.**

An ISO 9001:2008 Company  
 Regd. Office : 15, UGF, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi-110001  
 (CIN : L45201DL1983PLC016821)

**NOTICE**

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, the 29th day of May, 2017, inter-alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the quarter / year ended 31st March, 2017 and recommendation of dividend, if any, for the Financial Year ended 31st March, 2017.

Further details may be accessed on the Company's Website i.e. [www.ansals.com](http://www.ansals.com) and also on the Stock Exchanges' Website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For ANSAL HOUSING & CONSTRUCTION LTD.  
 Sd/-  
 (S.N. Grover)  
 Addl. V.P. & Company Secretary  
 M. No. FCS 4055

Place : New Delhi  
 Dated : 17.05.2017

**PINCON LIFESTYLE LIMITED**

(Formerly Modi Udyog Limited)

CIN: L51226WB1982PLC035312  
 Regd. Off. : "Wellesley House", 7, Red Cross Place, 3rd Floor, Kolkata-700 001  
 Corp. Off. : No. 103, K. H. Road, Shanthinagar, "Samskruthi Chambers",  
 3rd Floor, Bengaluru-560 027  
 Tel : 91 33 2231 9135, Fax : 91 33 4001 4642  
 Email: [info@pinconlifestyle.com](mailto:info@pinconlifestyle.com) | Website: [www.pinconlifestyle.com](http://www.pinconlifestyle.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 29th May, 2017, at 12.30 p.m. at the Registered Office of the Company, inter-alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2017.

The said notice may be accessed on the Company's website at [www.pinconlifestyle.com](http://www.pinconlifestyle.com) and on the Stock Exchange's website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) (BSE Limited) and [www.mseil.in](http://www.mseil.in) (Metropolitan Stock Exchange of India Limited).

Place: Kolkata  
 Dated : 17.05.2017

For Pincon Lifestyle Limited  
 Sd/- Niraj Kumar  
 Company Secretary & Compliance Officer

**SASTASUNDAR VENTURES LIMITED**

(Formerly Microsec Financial Services Limited)  
 CIN - L65993WB1989PLC047002

Registered Office: Azimganj House, 2nd Floor, 7 Abanindra Nath Thakur Sarani  
 (formerly Camac Street), Kolkata - 700 017  
 Tel: (033) 2282 9330, Fax: (033) 2282 9335  
 Email: [investors@sastasundar.com](mailto:investors@sastasundar.com) Website: [www.sastasundarventures.com](http://www.sastasundarventures.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 26th day of May, 2017 inter-alia, to consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2017.

This Notice is also available on the Company's website at [www.sastasundarventures.com](http://www.sastasundarventures.com) and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

By Order of the Board  
 For Sastasundar Ventures Limited  
 Biplab Kumar Mani  
 Company Secretary  
 Mem. No.- ACS 19883

Place : Kolkata  
 Date : 17.05.2017

**GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED**

Fertilizernagar - 391 750, Vadodara, Gujarat, India.

CIN : L99999GJ1962PLC001121 • [www.gsflimited.com](http://www.gsflimited.com)

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Meeting of Board of Directors of Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited is scheduled to be held on **Monday the 29<sup>th</sup> May, 2017** inter-alia to consider:

1. Approving of the Audited Annual Accounts / Financial Results of the Company for the financial year ended **31<sup>st</sup> March, 2017**, and
2. Recommendation of Dividend, if any, on the Equity Shares of the Company for the Financial Year 2016-17.

For Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited  
 Place: Fertilizernagar  
 Date: 11-05-2017  
 CS V. V. Vachhrajani  
 Company Secretary & Vice President (Legal)

The notice is also available on Company's website [www.gsflimited.com](http://www.gsflimited.com) and corporate announcement section of stock exchange's website [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

This is only an advertisement for information purposes and not an Offer Document Announcement.



**Vardhman**

Delivering Excellence. Since 1965.

**VARDHMAN SPECIAL STEELS LIMITED**

Vardhman Special Steels Limited (Our Company) was incorporated on May 14, 2010, as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 and subsequently received its certificate of commencement of business on June 15, 2010. In the year 2011 pursuant to Scheme of Arrangement & Demerger between Vardhman Textiles Limited and our Company as sanctioned by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana, Chandigarh under Section 391-394 of Companies Act, 1956 dated January 12, 2011, the Steel business undertaking of Vardhman Textiles Limited got vested in our Company w.e.f. January 01, 2011.

Registered Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141010, Punjab, India

Contact Person: Sonam Taneja, Company Secretary & Compliance Officer, E-mail: [secretarial.lud@vardhman.com](mailto:secretarial.lud@vardhman.com), Website: [www.vardhmansteel.com](http://www.vardhmansteel.com)

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. S.P. OSWAL, MRS. SHAKUN OSWAL, MR. SACHIT JAIN, MRS. SUCHITA JAIN, MS. SOUMYA JAIN, MS. SAGRIKA JAIN & PROMOTER GROUP ENTITIES/COMPANIES AS STATED ON PAGE 4 OF THE LETTER OF OFFER DATED MARCH 30, 2017 ("LOF").

ISSUE OF 1,35,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 50 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 40 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ 6,785 LAKHS BY VARDHMAN SPECIAL STEELS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER"). THE ISSUE COMPRISES OF ISSUE OF 1,23,70,000 EQUITY SHARES TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 2 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 3 EQUITY SHARES HELD ON APRIL 10, 2017 (THE RECORD DATE) AGGREGATING UP TO ₹ 6,185 LAKHS AND A RESERVATION OF UPTO 12,00,000 RIGHTS EQUITY SHARES FOR THE ELIGIBLE EMPLOYEES ("THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION") OF THE COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 600 LAKHS. THE ISSUE TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS AND ELIGIBLE EMPLOYEES COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "ISSUE". THE ISSUE LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE PRICE IS FIVE TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "OFFERING INFORMATION" ON PAGE 279 OF THE LOF.

